



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 18] नई दिल्ली, अप्रैल 29—मई 5, 2007, शनिवार/वैशाख 9—वैशाख 15, 1929  
No. 18] NEW DELHI, APRIL 29—MAY 5, 2007, SATURDAY/VAISAKHA 9—VAISAKHA 15, 1929

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक् संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2007

सा.का.नि. 68.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (सामाजिक अध्ययन) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2005 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (सामाजिक अध्ययन) समूह 'क' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2007 होगा।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (सामाजिक अध्ययन) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2005 की अनुसूची में :

- (क) कॉलम 13 में दी गई विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“समूह ‘क’ विभागीय प्रोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने हेतु) :—

1. भारत के महारजिस्ट्रार —अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय —सदस्य
3. भारत के अपर महारजिस्ट्रार/भारत के संयुक्त महारजिस्ट्रार —सदस्य”;

(ख) कॉलम 14 में दी गई विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक है।”

[फा. सं. ए-16011/3/2004 -प्रशा. II]

डी. एस. सैनी, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम दिनांक 22 अक्टूबर, 2005 के सा.का.नि. 374 द्वारा भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे।

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**  
(Office of the Registrar General, India)

New Delhi, the 24th April, 2007

**G.S.R. 68.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules to amend the Office of the Registrar General, India, Senior Research Officer (Social Studies) Group ‘A’ Post Recruitment Rules, 2005, namely :—

1. (1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India, Senior Research Officer (Social Studies) Group ‘A’ Post Recruitment (Amendment) Rules, 2007.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Schedule to the Office of the Registrar General, India, Senior Research Officer (Social Studies) Group ‘A’ Post Recruitment Rules, 2005,—

(a) under the column 13, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

**“Group ‘A’ Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :—**

1. Registrar General, India —Chairman
2. Joint Secretary (Administration), Ministry of Home Affairs —Member
3. Additional Registrar General, India/Joint Registrar General, India —Member.”

(b) under column 14, for the existing entries, the following entries shall be substituted namely :—

“Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation.”

[F. No. A-16011/3/2004-Ad.II]

D. S. SAINI, Under Secy.

**Note :** The Principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 374, dated the 22nd October, 2005.

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2007

**सा.का.नि. 69.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय (मानचित्र विश्लेषक) भर्ती नियम, 2004 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय (मानचित्र विश्लेषक) भर्ती संशोधन नियम, 2007 होगा।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय (मानचित्र विश्लेषक) भर्ती नियम, 2004 की अनुसूची में:

(क) कॉलम 13 में दी गई विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

**पदोन्नति पर विचार करने हेतु समूह ‘ख’ विभागीय प्रोन्नति समिति :**

1. भारत के महारजिस्ट्रार — अध्यक्ष
2. भारत के अपर महारजिस्ट्रार/भारत के संयुक्त महारजिस्ट्रार — सदस्य
3. उप महारजिस्ट्रार (मानचित्र)/सहायक महारजिस्ट्रार (मानचित्र) — सदस्य

(ख) कॉलम 14 में दी गई विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर (अल्पावधि अनुबन्ध सहित) नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक है”।

[फा. सं. ए-12032/8/99-प्रशा.-II]

डी. एस. सैनी, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम दिनांक 19 जून, 2004 के सा.का.नि. 199 द्वारा भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 24th April, 2007

**G.S.R. 69.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Office of the Registrar General, India (Map Analyst) Recruitment Rules, 2004, namely:—

1. (1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India (Map Analyst) Recruitment Amendment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Office of the Registrar General, India (Map Analyst) Recruitment Rules, 2004:—

(a) in column 13, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

“Group ‘B’ Departmental Promotion Committee (for considering promotion):—

1. Registrar General, India —Chairman

2. Additional Registrar General, India/ Joint Registrar General, India —Member

3. Deputy Registrar General (Map)/Assistant Registrar General (Map) —Member”

(b) in column 14, for the existing entries, the following entries shall be substituted namely:—

“Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract)”.

[F. No. A-12032/8/99-Ad.II]

D. S. SAINI, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 199, dated the 19th June, 2004.

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग )

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2007

सा.का.नि. 70.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (ज्येष्ठ पुलिस पद) भर्ती नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (ज्येष्ठ पुलिस पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2007 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (ज्येष्ठ पुलिस पद) भर्ती नियम, 2000 की अनुसूची में,—

(क) क्र. सं. 4 के सामने, स्तंभ 5 में, “योग्यता के आधार पर चयन” प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखी जाएगी, अर्थात्:—

“चयन”

(ख) क्र. सं. 5 के सामने, स्तंभ 5 में, “योग्यता के आधार पर चयन” प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखी जाएगी, अर्थात्:—

“चयन”

- (ग) क्र. सं. 6 के सामने, स्तंभ 5 में, “योग्यता के आधार पर चयन” प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखी जाएगी, अर्थात्:—

“चयन”

- (घ) क्र. सं. 7 के सामने, स्तंभ 5 में, “योग्यता के आधार पर चयन” प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखी जाएगी, अर्थात्:—

“चयन”

- (ङ) क्र. सं. 8 के सामने, स्तंभ 5 में, “चयन-सह-ज्येष्ठता” प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखी जाएगी, अर्थात्:—

“चयन”

- (च) क्र. सं. 9 के सामने, स्तंभ 5 में, “चयन-सह-ज्येष्ठता” प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखी जाएगी, अर्थात्:—

“चयन”

[फा. सं. 213/03/2005-ए. बी. डी.-II]

चन्द्र प्रकाश, अवर सचिव

**टिप्पणी**— मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 345 तारीख 7 सितंबर, 2000 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 283 (अ) तारीख 1 अप्रैल, 2003 और सा.का.नि. सं. 470 (अ) तारीख 24 जुलाई, 2004 द्वारा संशोधित किए गए थे।

### MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 27th April, 2007

**G.S.R. 70.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Bureau of Investigation (Senior Police Post) Recruitment Rules, 2000, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Bureau of Investigation (Senior Police Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Bureau of Investigation (Senior Police Posts) Recruitment Rules, 2000, in the Schedule,—

- (a) against serial number 4, in column 5, for the entry “Selection by Merit”, the following shall be substituted, namely:—

“Selection”

- (b) against serial number 5, in column 5, for the entry “Selection by Merit”, the following shall be substituted, namely:—

“Selection”

- (c) against serial number 6, in column 5, for the entry “Selection by Merit”, the following shall be substituted, namely:—

“Selection”

- (d) against serial number 7, in column 5, for the entry “Selection by Merit”, the following shall be substituted, namely:—

“Selection”

- (e) against serial number 8, in column 5, for the entry “Selection-cum-seniority”, the following shall be substituted, namely:—

“Selection”

- (f) against serial number 9, in column 5, for the entry “Selection-cum-seniority”, the following shall be substituted, namely:—

“Selection”

[F.No.213/03/2005-AVD-II]

CHANDRA PRAKASH, Under Secy.

**Note :** The Principal rules were published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 345, dated 7th September, 2000 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 283 (E), dated the 1st April, 2003 and number G.S.R. 470 (E), dated the 24th July, 2004.

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2007

सा.का.नि. 71.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (विधि सलाहकार और अभियोजक) भर्ती नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (विधि सलाहकार और अभियोजक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2007 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (विधि सलाहकार और अभियोजक) भर्ती नियम, 2002 की अनुसूची में,—  
(क) क्र. सं. 2 के सामने, स्तंभ 5 में, “योग्यता के आधार पर चयन” प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखी जाएगी, अर्थात् :—

“चयन”

(ख) क्र. सं. 3 के सामने, स्तंभ 5 में, “चयन-सह-ज्येष्ठता” प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखी जाएगी, अर्थात् :—

“चयन”

(ग) क्र. सं. 3 के सामने, स्तंभ 5 में, “चयन-सह-ज्येष्ठता” प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखी जाएगी, अर्थात् :—

“चयन”

[फा. सं. 213/03/2005-ए. वी. डी.-II]

चन्द्र प्रकाश, अवर सचिव

**टिप्पणी:** मूल नियम भारत के राजपत्र में सं. सा.का.नि 74 (अ) तारीख 21 जनवरी, 2002 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सं. सा.का.नि 848 (अ) तारीख 24 दिसंबर, 2002 द्वारा संशोधित किए गए थे।

New Delhi, the 27th April, 2007

**G.S.R. 71.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Bureau of Investigation (Legal Advisers and Prosecutors) Recruitment Rules, 2002, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Bureau of Investigation (Legal Advisers and Prosecutors) Recruitment (Amendment) Rules, 2007.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Bureau of Investigation (Legal Advisers and Prosecutors) Recruitment Rules, 2002, in the Schedule,—  
(a) against serial number 2, in column 5, for the entry “Selection by Merit”, the following shall be substituted, namely :—  
“Selection”  
(b) against serial number 3, in column 5, for the entry “Selection-cum-Seniority”, the following shall be substituted, namely :—  
“Selection”  
(c) against serial number 4, in column 5, for the entry “Selection-cum-Seniority”, the following shall be substituted, namely :—  
“Selection”

[F.No.213/03/2005-AVD-II]

CHANDRA PRAKASH, Under Secy.

**Note :** The Principal rules were published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 74(E), dated 21st January, 2002 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 848 (E), dated the 24th December, 2002.

2177 45/07-2

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2007

**सा.का.नि. 72.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, समूह 'क' और समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2001 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो समूह 'क' और समूह 'ख' पद (संशोधन) नियम, 2007 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो समूह 'क' और समूह 'ख' भर्ती नियम, 2001 की अनुसूची में,—

(क) क्र. सं. 1 के सामने, स्तंभ 5 में, "योग्यता के आधार पर चयन" प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखी जाएगी, अर्थात्:—

"चयन"

(ख) क्र. सं. 2 के सामने, स्तंभ 5 में, "चयन-सह-ज्येष्ठता" प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखी जाएगी, अर्थात्:—

"चयन"

(ग) क्र. सं. 3 के सामने, स्तंभ 5 में, "चयन-सह-ज्येष्ठता" प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखी जाएगी, अर्थात्:—

"चयन"

[फा. सं. 213/03/2005-ए. बी. डी.-II]

चन्द्र प्रकाश, अवर सचिव

**टिप्पणी:** मूल नियम भारत के राजपत्र में सं. सा.का.नि 352 तारीख 19 जून, 2001 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 27th April, 2007

**G.S.R. 72.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Central Bureau of Investigation Group 'A' and Group 'B' posts Recruitment Rules, 2001, namely:—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Central Bureau of Investigation Group 'A' and Group 'B' posts Recruitment (Amendment) Rules, 2007.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Central Bureau of Investigation Group 'A' and Group 'B' posts Recruitment Rules, 2001, in the Schedule,—

(a) against serial number 1, in column 5, for the entry "Selection by Merit", the following shall be substituted, namely:—

"Selection"

(b) against serial number 2, in column 5, for the entry "Selection-cum-Seniority", the following shall be substituted, namely:—

"Selection"

(c) against serial number 3, in column 5, for the entry "Selection-cum-Seniority", the following shall be substituted, namely:—

"Selection"

[F.No. 213/03/2005-AVD-II]

CHANDRA PRAKASH, Under Secy.

**Note:** The Principal rules were published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 352, dated 19th June, 2001.